

Plot No. 21 & 22, Sector-6, Faridabad-121 006 (Haryana) INDIA Tel.: 91-129-2240411, 2306700 2306783

13th November, 2025

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

NSE Symbol: SPLIL

Listing Department

BSE Limited

Phirozee Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532651

Subject- Compliance u/r 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed the extracts of the newspaper advertisements published for dissemination of approved unaudited financial results (Single Segment & Standalone) for the period ended 30^{th} September, 2025 in the below mentioned newspapers-

a) Business Standard (Hindi & English)

Please take it on your record

Thanking you

Yours faithfully,

For, SPL Industries Limited

Vishal
Srivastava

DN cmR comercial files/rdis, postulonym x012AC64F8D01ECZCEDE0909 ACF0030, 22.4.2.DoxydCabc4C9194E9A66F50bWdGreet to Seriackheekd27x68F8653741668335b, postulonym x012AC66850012, x=Raysthonesesson200066690777A00000765064 ACCOLD 200567538274F6580278088517FFA1EC, commishals investible.

Vishal Srivastava (Company Secretary & Compliance Officer)

Muthoot Mercantile Limited

GOLD AUCTION NOTICE Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold ornaments pledged with the under mentioned branches of the company in different branches of Uttara Pradesh, New Delhi, Harvana, Rajasthan, for the period which were overdue for redemption and have no been redeemed so far in spite of repeated notices, will be auctioned on 17.11.2025 at respective branches, Bidders/customers, can participate for auction by remitting EMD. In successful bidding does not take place on this date, pending packets will be auctioned through Online Auction Website - https://egold.auctiontiger.net post auction date. Contact details: Ph: 7994315666

PLEDGE NOS: UTTER PRADESH Ghaziabad:- 7744,7779,7807,7836,7837,7846,7847 852,7859,7865,7901,7908,7919,7922,7923,7940,7941,7953,7968,7992,7993,7994,8017,80 28,8032,8033,8051,8052,8064,8086,8095,8097,8098,8100,8124,8152,8153, Bhangel: 6404,6510,6784,6812,6821,6823,6847,6851,6859,6860,6874,6881,6882,6883,6886,6888,69 06,6907,6921,6923,6925,6927,6932,Sanjay Nagar Ghaziabad:-3629,3643,3661,3662 3668,3669,3683,3684,3685,3688,3700,3701,3709,3710,3713,3718,3719,3721,3732,3735,37 36 3740 3747 3749 3750 3751 3753 3754 3755 3756 3771 3772 3773 3780 3782 3789 3790 ,3794, 3795,3798,3799,**Lal Kuan:-**1728,1828,1856,1862,1865,1866,1867,1871, 1879 1882 1883 1884 1887 1894 1900 1905 1917 1918 1921 1922 1923 1925 1926 1938 1942 Da dri:-1578,1713,1730,1739,1758,1760,1784,1791,1793,1825, Murad Nagar:- 1501, 1504, 1516,1530, 1631,1658,1681,1684,1687,1705,1706,1709,1714,1715,

PLEDGE NOS: NEW DELHI Najafgarh:-6511,6660,6861,6869,7143,7150,7165,7175,7185 186,7192, 7198, 7199,7222, 7226,Laxmi Nagar: -5262,5271, 5277,5278,5281,5285, Sunder Vihar:-1684,1685,1690,1721,1729,1730,1732, 1733,1741,1772,1776,1787, 1788,1797 1798,1819, 1844,1850,1855,1880,1881,1882, 1886,1892,1893,1899, 1904,1905, 1910,1919 1920 1946 2483 2484 2499 5102 Dwarka More: 2408 3530 4061 4062 4063 4211 4213,4223, 4281,4296,4299,4300,4302,4303,4334, Nawada:- 6795,6804,6816, 6824, 6828 6836, Pankha Road:- 8889,8925,Laxmi Nagar Shakarpur:-4582,5037, 5116,5122, 5174,5175, 5178,5182, 5208,5221, 5228,5236, 5249,5265, 5267, 5268,Kartar Nagar:-8990,9317,9348,9529, 10183,10329, 10340,10345, 10350, 10368,10402,10421,10447,10457, 10481,10500,10511,10512,10519,10530,10533,10535,10537,10539,10541,10547,10550,10 551.10552.10553.10554.10556.10568.10569.10619.10623.10637.10638.10639.10641. **Kar**a wal Nagar: -14395, 14431,14458,14462,14481,14488,14488,14516,14518,14522 14530,14534,14539,14541,14545,14551,14554,14560,14576,14577,14580,14581,14587 14593,14597,14602,14605,14606,**Bhajanpura**:-2775,3442,3644,3646,3667,3690,3691,3696,3699,3709, **Adhyapak Naga**r:-8233,8249,8254, 8324,8332,8334,8373,8458,**Vishnu** Garden: -3310,3664, 3695, 3702, 3711,3753,**Uttam Nagar**: -1659,2579,4583,4816, 4892, 4893,4894,4911,4915, 4934, 4955,4958,4963,4988,4999,**Kirar**i:-2472,2477,3788,4218,4264, 4357 4437 4452 4454 4459 4499 4506 4507 4526 4531 4542 4552 4556 4560 4567 4570,4584, Nehru Place: -4444,4665,4676,4684,4691,4716,4717, Adarsh Nagar: -3113,3297 Lado Sarai:-2318,Narela:-3889,3923, Mohan Garden:- 2275,2414,2532, 2603 2613,2626,North Gonda :-2551,2725,2738,2739,2758, 2759,2761,2786, 2799,Kapashera:-2533 2541 | 2546 | 2549 2566 2572 2581 | 2583 2585 Naveen Shahdara:-2855 3040 3064,3088, 3108,3111,3116,**Swaroop Nagar:-**1768,1776,1787, 1789,1808, 1814,1822 1834 1837 1843 1846 1847 1849 1870 1874 Shalimar Garden:-1900 2040 2048 2050

2067, 2068, 2090, 2107, 2124, Molar Band: -1900, 1903, 1956, 1966, Burari: -1106, 1114, 1116, PLEDGE NOS: HARYANA Faridabad:- 8551,8557, 8560,8561, 8584, 8592, 8595, 8597 .8601.8634.8635, 8642.8648.8657.8659.8664, 8666.8668, 8670.8672, 8675.8676 8679,8681,8695,8696,8704,8711,Faridabad Sector-29:-8257,8274, 8284,8293 8299.8303.8310. 8311.8327.8345.8346. 8351.8353.8355.8371.8373. 8379.8380. 8389 8394,8400,8404,8407,8408,8410,8415,8417,8419,8426,8434,8443,8445,8447,8451,8455,84 57,8459,8473,8477,8478,8479,8489,**Jawahar Colony:**-1453,12280,12312,14021,14063,14885,14892, 15301,15310,15334, 15335,15341, 15343, 15372,15374,15378,15385,15389,15393,15400, 15404,15411,15415, 15416,15417, 15418, 15423,15429, 15435, 15438,15438,15440,15441, 15443,15444,15480,15451,15458,15462,15465,15469,15470,15471,15472,15475,15478,15480,15497,15501,15502,15504,15505,15512,15513,15514, 15516 15517 15518 15519 15529 15538 15547 15548 15549 15550 15551 15552 15555 15557,15559,Gurgoan Sector 14:-3984, Dundahera:- 3569,4486,4488, 4492, 4493, 4494 4499, 4511, 4521,4522, 4524,4533, 4535,4544,4549,4557, 4565, 4580, 4581, 4582,4583,4586,4587,4588,4591,4599, **Laxman Viha**r:-2680,2693,2695, 2727,2736,2738, Parvathiya Colony:-1603,1622,1626,1638, 1639,1641.1642.1643.1673.1675

PLEDGE NOS: Rajasthan Manasarovar:- 1026,1037,1190,1239,1243,1247, Jhotwara: 027, Vidhyadhar Nagar:-1594,1614,1619,1625,1633,1634,1654,1655, Kanta Chauraha: 1327,1719, 1723,1761, Pratap Nagar: - 1022, Murlipura: - 1019,

Place: UTTER PRADESH, Date: 13.11.2025 For Muthoot Mercantile Limited, Chairman SPL INDUSTRI€S LTD.

Regd. Office: 202, 2nd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaji, New Delhi-110019 Email: cs@spllimited.com | CIN: L74899DL1991PLC062744

The Manager Listing Department, NSE/BSE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2025

						(In ₹ Lakhs)
PARTICULARS	Quarter Ended 30.09.2025	Quarter Ended 30.06.2025	Quarter Ended 30.09.2024	Half Year Ended 30.09.2025	Half Year Ended 30.09.2024	Year Ended 31.03.2025
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	1,810.02	2,035.56	4,298.33	3,845.58	8,857.89	15,319.61
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (before extraordinary items and Tax)	(7.38)	123.95	401.52	116.56	777.74	1,295.24
Net Profit / (Loss) from ordinary activities before Tax (after extraordinary items)	(7.38)	123.95	401.52	116.56	777.74	1,295.24
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	(19.83)	91.30	396.75	71.46	655.12	979.15
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(19.83)	91.30	396.75	71.46	655.12	977.41
Equity Share Capital	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the Previous Year)						
Earning Per Share (before extraordinary items and tax) (of ₹10/- each)						
Basic: Diluted:	(0.03) (0.03)	0.43 0.43	1.38 1.38	0.40 0.40	2.68 2.68	4.47 4.47
Earning Per Share (after extraordinary items & tax) (of ₹10/- each)						
Basic: Diluted:	(0.07) (0.07)	0.31 0.31	1.37 1.37	0.25 0.25	2.26 2.26	3.37 3.37

NOTES

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 12" November, 2025. The Statutory Auditors have reviewed the results for the Quarter/Half Year ended 30" September, 2025. This Statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (IND AS), Prescribed unde section 133 of the companies act 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. The company adopted

Ind-AS from 01st April 2017 The Meeting of Board of Directors was held on 12 November, 2025 at the schedule time and the above results were approved As per INDAS 108 "Operating Segment", the company has disclosed the segment information only as a part of the standalone financial results.

Effective April 1, 2018, the Company adopted Ind-AS 115 – Revenue from Contracts with Customers. The effect on adoption of Ind-AS 115 is insignificant on the financial statements. Effective April 1, 2019, the Company adopted Ind-AS 116 - Leases. The effect on adoption of Ind-AS 116 is insignificant on the financial

No complaints were received during the Quarter/Half Year ended 30th September, 2025.

Previous Year / Period figures have been recasted/regrouped/reclassified wherever considered necessar



Date: 12.11.2025

Sd/-Mukesh Kumar Aggarwa (Managing Director)

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED CIN: U67100GJ2015PTC083994 Address: 1st Floor, Wakefield House, Sprott Road, Ballard Estate, Mumbal 400038

POSSESSION NOTICE Finova Capital Private Limited. has vide a Deed of Assignment dated 31st December 2024, assigned in favor of CFM Asse econstruction Private Limited, inter alia, Whereas, the undersigned being an Authorized Officer of CFM Asset Reconstruction Company (CFM ARC), under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice the Borrower/Co-Borrowers/Mortgagors/Guarantor mentioned herein below to repay the amount due. The notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein bel n exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules.

The Borrower & Personal Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CFMARC for an amount mentioned herein below together with further nterest plus costs, charges and expenses etc. thereon (less amounts paid since issue of demand notice, if any).

The Borrower & Personal Guarantor's attention are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

Name of Borrower / Guarantor (s) / Security Provider/s / Loan A/c no.		Date of Possessior	Description Of Mortgaged Property
(Loan A/C No.) 5047445, Bimla Devi (Borrower) Tarsem Tarsem (Co-Borrower)	18-Feb-25 Rs. 5,17,053/- Rupees Five Lakhs Seventeen Thousand Fifty Three Only As On 31-12-2024	08-Nov-25	All That Part And Parcel Of Residential/ Commercial Property Land/Building/Structure And Fixtures Khewat No.254, Khatoni No.289, 299, Vill- Ashakheda, Teh-Dabwali, Dist-Sirsa, Haryana 125101 Admeasuring 850 Sqft East: Road, West: H/O Rajesh, North: H/O Mahendra, South Road
(Loan A/C No.) 6008379, Preet Kour (Borrower) Angrej Singh (Co- Borrower) Karm Rekha (Co- Borrower) Sukhdev Singh (Co- Borrower)	21-Feb-25 V4,45,297/- Rupees Four Lakhs Forty Five Thousand Two Hundred Ninety Seven Only As On 31-12-2024	07-Nov-25	All That Part And Parcel Of Residential/ Commercial Property Land/Building/Structure And Fixtures Hadbast No. 0096, Khewat No. 225, Khatoni No. 330, Muraba No. 102, Kila No. 7/2/3/2, Jamabandi Year-2017-18, Waka Village-Malekan, Tehsil & Distt-Sras, Haryana. 125055 Admeasuring 1315 Sqft East: Agriculture Land Of Munshi Ram, West: Street 22 Ft. Wide, North: Vacant Plot Of Rana, South H/O Kuldeep Singh & H/O Gurmukh Singh
(Loan A/C No.) 5022290, Sandeep Kumar (Borrower) Meera Devi (Co- Borrower)	17-Mar-25 Rs. 7,86,922/- Rupees Seven Lakhs Eighty Six Thousand Nine Hundred Twenty Two Only As On 31-12-2024	08-Nov-25	All That Part And Parcel Of Residential/ Commercial Property Land/Building/Structure And Fixtures Khewat No 414 Khatauni No 461 Murabba No 66 Killa No 7/2 Village Mori Teh Dabwali Distt Sirsa, Haryana 125103 Admeasuring 1820 Sqft East: 98'- 0' Krishna Devi, West: 98'-0' Lalit Kumar, North: 27'-0' Road, South 27'-0' Bhardwaj
(Loan A/C No.) 5023216, Manoj (Borrower) Santosh (Co-Borrower)	17-Mar-25 Rs. 6,83,856/- Rupees Six Lakhs Eighty Three Thousand Eight Hundred Fifty Six Only As On 31-12-2024	06-Nov-25	All That Part And Parcel Of Residential/ Commercial Property Land/Building/Structure And Fixtures House In Village Taragarh, Tehsil & Distt. Kaithal, Admeasuring 768 Sqft East: Satta, West: Jiya Lal, North: Jogi, South Street
(Loan A/C No.) 5029867, Surjeet Ram (Borrower) Karamjeet Karamjeet (Co-Borrower)	17-Mar-25 Rs. 4,38,101/- Rupees Four Lakhs Thirty Six Thousand One Hundred One Only As On 31-12-2024	07-Nov-25	All That Part And Parcel Of Residential/ Commercial Property Land/Building/Structure And Fixtures Ward No. 15, Nato Wail Gali Village Rania, Tehsil Rania & Distt Sirsa Village Rania, Tehsil Rania & Distt Sirsa, Haryana 125055 Admeasuring 1348 Sqft East: Agriculture Land Of Tehla Singh, West: Gall 5 Ft. Wide, North: Plot Of Ram Singh, South Plot Of Amarjeet Singh
(Loan A/C No.) 6014898, Sunil Kumar (Borrower) Reena Devi (Co- Borrower)	17-Mar-25 Rs. 4,55,527/- Rupees Four Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred Twenty Seven Only As On 31-12-2024	06-Nov-25	All That Part And Parcel Of Residential/ Commercial Property Land/Building/Structure And Fixtures Property Measuring Area Is 110.414 Sq.Yds Or 993.726 Sq.Ft. Or 92.32 Sq.Mtrs., Having Plot/House Uid No. 589370WBNM2000RR363A, U.I.D. Lgd No. 589370363, Inside Lai Dora Of Village Bhana, Tehsii - Pundri, Distt Kaithal, 136043. Admeasuring 688 Sqft East: Street 5 Ft. Wide & H/O Rajesh S/O Bharthu Ram, West: H/O Karambir Singh S/O Puran Singh, North: H/O Karbir Singh S/O Puran Singh, South H/O Ishwar Singh S/O Tellu Ram

Date : 12/11/2025 **CFM Asset Reconstruction Private Limited** [Acting in its capacity as Trustee of CFMARC Trust - 151] Place : Haryana

Total liabilities as on 13.09.2022: Rs

30 07 872/- plus further interest & other

charges (minus recovery, if any)

Rs. 27.20 Laki

Rs. 2.72 Lakh

Rs. 8.26 Lakh

Rs. 0.83 Lakh

Rs. 21.21 Lakh

Rs. 2.03 Lakh

Rs.17.79 Lakh

Rs. 1.78 Lakh

SYMBOLIC

POSSESSION

SYMBOLIC

POSSESSION


SYMBOLIC

POSSESSION

SYMBOLIC:

POSSESSION

केनरा बैंक Canara Bank



15 DAYS SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 **Recovery Section, Regional Office**

Plot no. 39, 1st Floor, Near Bohra Hyundai, Neelam-Bata Road, Faridabad Contact no. 0129-2413997 email id: rofbdrec@canarabank.com

Notice is hereby given to the public in general and in the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorized Officer of respective Canara Bank Branches, will be sold on "As is where is", "As is what is, and "Whatever there is" E-auction arranged by the service provider of following details.

LAST DATE OF RECIEPT OF EMD IS 27.11.2025 AT 5.00 PM(OFFLINE OR ONLINE)

DATE OF E-AUCTION IS 29.11.2025 12:30 PM TO 1:30 P.M.

(With unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

Sr. N	Branch Name/ Name & Address of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified Date	EMD (In Rs)	Possession Type
1	Sh. Nishart Sinha, Canara Bank-7499918306, Ph. No. 7499918224 duning office hours on any working day. E-mail id: cb18224@canarabank.com Or Helpdesk	All the part and parcel of residential property to an extent of 5 marla which bears Khewat/Khatoni no. 855/922, Khasra No. 263(0-7), including Tamirat four rooms, Latrin, Bathroom, bounded by four walls and total covered area 135 sq. yds. situated within Moja Bamnikhera, Tehsil Palwal, Distt-Palwal in the name of Mrs. Urmila W/o Babulal Arya and Babulal Arya So Mr. Balmukund Arya. Borrower:1. Babu Lal Arya So Bal Mukand Address: H No 456 Raway Road, Village Bamnikhera Palwal-121105 2. Urmila Arya W/o Babu Lal Arya So (co-borrower) Address: H No 456 Raway Road, Village Bamnikhera Palwal-121105 Guarantors: 1. Dharambir S/o Khushi Ram Address: Khera Sarai Palwal Palwal , Haryana-121105.	2.61.338.47plus further interest & other	Rs. 21.25 Lakhs Rs. 2.13 Lakhs	SYMBOLIC POSSESSION
2	Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 7496918224 during office hours on any working day. E-mail id: cb18224@canarabank.com Or Helpdesk No. 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballianoe.com	All the part and parcel of House no. 139, Block-P, S.G.M Nagar, Faridabad Plot measuring 50 sq. yards (18*25 feet), forming part of Khewat no. 55, Khatoni no. 104, Rect. No. 114, Kila no. 17/1, 24/2/2, Rect. no. 121, Kila no. 3/3, 3/4, 4/1, Khatoni no. 105, Rect no. 114, Kila no. 24/2/1. Bounded as under on the basis of supporting affidavit of the borrower East: House Vyas Upadhyay West: House of Chaudhary North: House of Lakhi South: Rasta Borrower: 1. Birender Baisla Son Of Desh Raj (Borrower) Address: Hno C 2584 Mohan Deri SGM Nagar Faridabad-121001, Guarantors: 1. Gopal Dass Bhadani S/o Radhakishan Bhadani Ad Birender Baisla Address: Hno. C 2584 Mohan Deri Sgm Nagar Faridabad-121001	8,85,478.21 plus further interest & other charges (minus recovery, if any)	Rs. 22.52 Lakh Rs. 2.26 Lakh r Faridabad-121001	SYMBOLIC POSSESSION
3	hours on any working day. E-mail id: cb19254@canarabank.com Or Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com	All the part and parcel of Northem portion of Plot no. 109, measuring 51.6 sq. Yds. Comprised in Rect. No. 44, Kila no. 13 & 18, Mauja Dabua, Tehsil and District Faridabad (Now Known as Hno. 607/570, 27 feet road, Dabua Colony, NIT Faridabad) as per registered Sale deed dated 27.03.1996, Registered with S.R Faridabad, bearing document no. 7432 in the name of Mr. Gopal S/o Ram Phal. Bounded as Under: East: Other's Property West: Rasta North: Plot no. 108 South: Plot no. 109. Borrower: 1. Gopal S/o Ram Phal (borrower) Address: Dp 1461 Near Vip Medical Dabua Colony, Faridabad-121001. Guarantors: 1. Anil Kumar S/o Ajit Singh Address: Hn 885 Dabua Colony Farid	charges (minus recovery, if any)	Rs. 23.00 Lakhs Rs. 2.30 Lakhs	SYMBOLIC POSSESSION
4	Sn. Nishant Snha, Canara Bank-7499918306, Ph. No. 9911380609 duning office hours on any working day. E-mail dic db5951@canarabank.com Or Helpdask No.	All that part and parcel of the immovable property: House No.MCF no.763/400 A, Sabdal market wali gali, Badkhal extention, Badkhal – pali road, Faridabad, Haryana. Bounded as under North – GaliSouth – Other's property East- Subekhar West-Ayub Khan Borrower: I.: Mr.Kale Khan S/o Sh. Nazir Khan, Address: House No. BA880, Badhkal colony, Faridabad, Haryana – 121001. Guarantor – Sh. Sushil Kumar S/o Shri Jagdish Parshad, Address: House I	11,12,664.13 plus further interest & other charges (minus recovery, if any)	Rs.15.10 Lakhs Rs.1.51 Lakhs ana – 121005.	SYMBOLIC POSSESSION
	Sh. Nishant Sinha. Canara Bank-7496918308. Ph. No. 7496918224 during office	All the part and parcel of the Gairmumkin property to the extent of 3/320th share in Khewat/Khatoni No. 314 Min/324, Rect no. 68, Killa no. 14(8-0), the share of the applicant comes 0 kanal 1 1/2 Marla	Total liabilities as on 16.05.2024 : Rs.	Rs.3.66 Lakhs	SYMBOLIC

approximately 50 sq. yds. Situated in village Bamnikhera, tehsil palwal, Distt- Palwal in the name of Mr. Rajveer Singh S/o Sohan La hours on any working day. E-mail id: cb18224@canarabank.com Or Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com 3,70,552.29 plus further interest & other POSSESSION Rs.0.37 Lakhs orrower: 1. Rajveer Singh S/o Sohan Lai(borrower) Address: So Sohan Lai Kishora Mohalla Near Dher Wali Mata Ka Mandir Village Bamnikhera ,palwal, Haryana- 121105. Guarantors: 1. Sunil Kumar S/o Kishan Chand Address: House No 1399 Ward No 12 Jawahar Nagar,camp Palwal-haryana-121105. All part and Parcel of commercial property in the name of Kehar Singh S/o Paras ram at Shop no. 2, measuring 115 sq. yds. forming part of Khasra no. 29/23(7-14), Situated at gali no. 1, ward no. 1, Holi chowk, Samaypur road, Rajiv colony, Sector-25, Mauza Ranher, tehsil Ballabhgarh, District Faridabad. Bounded as Under: On the north: Other property On the South: Road On the East: Rawat Tent house On the West: Other pert of Property Rs. 41.23 Lakh SYMBOLIC POSSESSION Rs. 4.13 Lakh

Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 9560038562 during offic hours on any working day. E-mail id: cb8562@canarabank.com Or Helpdesk N 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com Borrower: 1. M/s Kirtl Enterprises Through its Prop. Sh. Kehar Singh Address: Shop No 2, Gali No 2, near Holi Chowk, Rajiv Colony, Samaypur Road, Sector 25, Dist Faridabad - 121001. 2. Sh. Kehar Singh S/o Paras Ram Address: Hno. 34, VPO-Ghangola Ghangola 212 Gurgaon-122103 Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 7703870749 during office Total liabilities as on 16.05.2024 : Rs Rs.31.04 Lakhs

All the part and parcel of the property in possession of Murari Lal S/o Tula Ram plot sampati measuring 26' X 55', Total area: 159 sq. yds. Situated in Moja Fatehpur Biloch and within the Abadi of Lal Dora of Fatehpur Biloch, Tehsil Ballabhgarh, Distt-Faridabad.Bounded: On the North by: Mahavir Etc. On the South by: Rasta On the East by: Rasta Sare Aam On the West by: Murari Lal St. Nestati Gui, valiata et l'especialité de l'especialit 10.42.922.89 plus further interest & other Borrower: 1. Murari Lal S/o Tula Ram Address: Village Fatehpur Biloch Tehsil Ballabhgarh, Distt-Faridabad Chunni Lal S/o Sohan Lal Address: Village Fatehpur Biloch Tehsil Ballabhgarh, Distt-Rs.3.11 Lakhs **POSSESSION** charges (minus recovery, if any)

Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 9560082099 during office hours on any working day. E-mail id: cb5951@canarabank.com Or Helpdesk No estate of village Bamnikhera, tehsil Palwal, Distt. Palwal in the name of Mr. Premchand S/o Jawali. Total liabilities as on 17.05.2024 : Rs 5,31,639,89 plus further interest & other SYMBOLIC Rs. 40.28 Lakhs POSSESSION Rs. 4.03 Lakhs Borrower: 1. Prem Chand S/o Jawali (borrower) Address: Kishora Mohalla Near Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishan S/o Prem Chand Address: Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana-121105 Guarantors: 1. Jai Kishora Chopal Bamnikhera, Palwal, Haryana Chopal Bamnikhera, Palwal, Palwal, Haryana Chopal Bamnikhera, Palwal, Palwal, Palwal, Palwal, Palwa charges (minus recovery, if any)

Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 9560038562 during office hours on any working day. E-mail id: cb8562@canarabank.com Or Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com charges (minus recovery, if any) VermaSio NareshVerma M272 Near RadhaKrishna MandirGandhi Colony, NIT Faridabad-121001 Guarantor: NareshVermaSio Rajender VermaM272, Near RadhaKrishna Mandir Gandhi Colony, Faridabad-121001 Residential property forming part of khewat/khata no 345/425, 346/426, Rect no-24 killa no 24/6(0-3) 24/7(0-3) total measuring area 00kanal 06marla i.e. 180 sq yards situated with in revenue estate Total liabilities as on 29.03.2017: Rs. 8,17,541.37 plus further interest & other Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 8572803398 during office hours on mubarikpur, The Punhana, Distt-Mewat. Bounded as under North - House of Pappu South - Other Plot East-House of kundan, West - Rasta any working day. É-mail id: cb3398@canarabank.com Or Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com Borrower: 1. M/s Unique Print Works, Prop-Sh. Mohd. Sameen s/o Sh. Nizar Mohd, Near OBC Bank, Hasanpur Road, Hodal, Haryana ii. Sh. Mohd. Sameen s/o Sh. Nizar Mohd r/o Vill Mubarikpur, charges (minus recovery, if any)

The-Punhana, Haryana. Guarantor I. Sh. Mohd. Isha s/o Ash Mohd, Vill-Singar, Teh-Punhana, Mewat, Haryana. Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 7496918299 during office All the part and parcel of Plot measuring 100 sq. yds. Comprised in rectangle no. 8, Killa no. 13/1, Mauza Jharsaintely, Tehsil Ballabhgarh, Distt. Faridabad, (Now Known as Rajiv Colony, Ballabhgarh, Total liabilities as on 16.05.2024 : Rs. hours on any working day. E-mail id: cb18299@canarabank.com Or Helpd 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com Distt. Faridabad) in the name of Mr. Surai Kumar S/o Chandra Pal. 978012.62 plus further interest & other

Borrower: 1. Suraj Kumar S/o Chandra Pal (Loan no. 82997830000210) Address: Hno. 147, Rajiv Colony Samaypur road, Ward no. 1, Ballabhgarh Faridabad-121004 Guarantors: 1.Jal Singh S/o Lakhmi Chand (Loan no. 82997830000210) Address: Hno. 653, 1 Rajiv colony, Sec-56 Ballabhgarh, Faridabad-121004. Property of Sh. Mohd Samin S/o Sh. Nijar Mohd S/o Sh. Mamman comprised as 10/360th share in the Khewat/Khata no. 201/269 Rect no. 49, Killa no. 3/2(2-0), 4/1/1(2-0), 4/1/2(2-0), 5(8-0), 4/2(4-0) area measuring 18 kanal 0 marla. (3202 sq yards) situated in the revenue estate of Village Mubarikpur Teh Punhana (being ownership wide Mutation of Sale no. 2505) which is bounded as under: Or the North by: Other Property On The South By: Rasta On The East By: House Of Sh. Rakib On The West By: Other Property Total liabilities as on 31.08.2019 : Rs. 31.48.017 /- plus further interest & other

Sh. Nishant Sinha, Canara Bank-7496918308, Ph. No. 8600518162 during office hours on any working day. E-mail id: cb3398@canarabank.com Or Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com Borrower: 1. M/s Shifa Trading Company Prop. Sh. Sahil S/o Sh. Md. Samin VIII-Mubarikpur, Teh-Punhana Distt-Mewat, Haryana-122508. 2. Sh. Sahil S/o Sh. Md. Samin VIII-Mubarikpur, The-Punhana Distt-Mewat, Haryana-122508

a) The property is being sold with all the existing and further encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property to his satisfaction. The bidder are advised to in their own interest to satisfy themselves with the title and correctness of others details pertaining to the secured assets including the size/area of the immovable secured asset in question and also ascertain any other dues/liabilities/encumbrances from the concerned authorities to their satisfaction before submitting the bid. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the authorized officer/Secured Creditors in this recard at a later date. b) In the event of any default in payment of any default in payment of any of the amounts, or if the sale is not completed by reasons of default on the part of the purchaser/bidder within the aforesaid time limit, the bank shall be entitled to forfeit all monies paid by the

bank on account of such resale shall be borne and paid by the defaulting purchaser. c) The property is being sold with all the existing and further encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized officer/Secured Creditor shall not be entitled to make any

claim against the authorized officer/Secured Creditors in this regard at a later date

d) Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website https://ebkray.in. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.

e) The property can be inspected, any time with Prior Appointment with Authorized Officer on or before the date of submission of EMD is 27.11.2025 and f) The property will be sold for the price which is more than the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process

g) EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (E-bkray) portal directly or by generating the Challan therein to deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan

h) Intending bidders shall hold a valid digital signature certificate and e-mail address. For details with regard to digital signature please contact the service provider M/s PSB Alliance (Ebkray), Helpdesk No 8291220220, E-mail: support.ebkray@psballiance.com through the website https://ebkray.in

) After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents/details on or before 27.11.2025 at 05.00 PM to Canara Bank Branches, by hand or by email.

) Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No. i) Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount.

iii) Bidders Name, Contact No. Address, E Mail Id. iv)\ Bidder's A/c details for online refund of EMD.

Other terms and conditions:

i) EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest.

k) Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs. 10,000 The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favors of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor

1) The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorized Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again

m) For sale proceeds of Rs. 50 (Rupees Fifty) lacs and above, the successful bidder will have to deduct TDS at the rate 1% on the Sale proceeds and submit the original receipt of TDS certificate to the Bank. n) All charges for conveyance, stamp duty/GST registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only.

o)Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof

n case there are bidder who do not have access to the internet but interested in participating the e-auction, they can approach concerned Circle Office or respective branch who, as a facilitating centre, shall make necessary arrangements for further details Contact No. Ph. 0.129-2413997 Email id: rofbdrec@canarabank.com

Date - 13.11.2025 Place - Faridabad **Authorized Officer Canara Bank**



U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD. VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010 Ph. No. 0522-2307826/28 www. Email: upstatesugarcorporation

Ref. No.:- SS/SSC/Brown Sugar/2023-24, 2024-25/789

SHORT TERM TENDER NOTICE FOR SALE OF BROWN SUGAR AND RORI SUGAR

E-tenders are invited from bonafide traders having experience in sugar trading for sale of Brown Sugar and Rori Sugar stored at Mohiuddinpur, Pipraich and Munderwa units on 19.11.2025 upto 6:55 PM and shall be opened on 20.11.2025 at 12:00 Noon.

Tender documents and Terms & Conditions for sale of Brown Sugar and Rori sugar can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in or Corporation website www.upsugcorp.in. Tender Fee of Rs. 2000/-+18% GST=Rs. 2360 and Earnest Money of Rs. 200000/-for of Brown Sugar and Rs. 15000/-for of Rori Sugar to be deposited through RTGS only in Sugar Corporation account. Tenders without earnest money will not be accepted.

The undersigned reserves the right to cancel one or all the tenders without assigning any reason. MANAGING DIRECTOR

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भैससं सेरिएटिम तैंब एंड हाजिसंग्रं(पी) लिमिटेड और मेससं ओरिस इंफास्ट्रक्क प्राइवेट लिमिटेड,जिसका पंजीकृत कार्याजय सेस्टर 83, गुड़गांव, हरियाणा में है और ममला गुपा निवासी 1/29ए शांति निकंतन नई दिल्ली—110021 (इसके बाद मालिक के रूप में संदर्भिण) ने घोषणा की है कि वे गाव ओड़की दोला, जिला गुड़गांव हरियाणा में 72 कनाल 84 मरला या 9052 एकड़ भूमि पर निर्मित पंजीरियल टायर्स के रूप में ज्ञात परियोजना के टॉक्स बें में स्थित, जिसमें आयत न39 किला न4(5–0), 6(9–0), 7(8–0), 8/1(3–0), 8/2(5–0), 1/2(1–11 में से – अब खसरा न 1/2/2), 2 (8–0 में से 7–92) 9(8–0), 10 (8–0 में से 6–6 अब खसरा न 10/1), 12/1/1(0–7) 11/2(2–16) और रेक्ट नं40 किला न1(8–0 में से 4–0 अब खसरा न 1/2), 2/2(6–3 में से 2–6 अब खसरा न 2/2/1/2) श्राणित है प्रवेशियाल टायर्स में हिस्स अल्लानकाल-ए में वर्षित विवास की कांग्रंत के प्राहिक और निवासों है /2/1/2) प्राप्तिन है, पतोरियत टायर्स में स्थित अनुतन्क-ए में वर्षित बिना बिकों इकाइयों के मालिक और निवासी। ो इसके बाद इसे ''उक्त संपत्ति' कहा जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, अनुलन्गक-सूचीबद्ध पत्तैटों (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित) के खिलाफ उपरोक्त मालिकों को सुरक्षा के रूप में वित्तीः विधा प्रदान करने का इरादा रखता है और मालिकों ने उक्त संपत्ति को बंधक रखने के लिए सहमति व्यक्त की है और पृष्टि हुए हैं। है कि उक्त संपत्ति के पास बिना किसी भार के समय और विष्णम बोग्य शीर्यकृदित है। कोटक पहिंद्रा बैंक लिगिटेड उस कुर्विद्या के खिलाफ उक्त संपत्ति पर बंधक और भार बनाकर उक्त संपत्ति के सापेक्ष वित्तपीषण करने के लिए तैयार है, इसलिए केसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था या इकाई को प्रस्तावित लेनवेन के खिलाफ आपत्ति है या किसी भी अधिकार, शीर्यक, हित, शैयर दांदे भार, ग्रहणाधिकार, सबंध, भार, समझीते, बंधक दृष्टिबंधक सुखमोग या किसी भी अन्य अधिकार, उक्त सपिति पर किसी भी प्रकृति के दावे का दावा करना है, एतर्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 7 दिनों के भीत लिखित रूप में अपनी आपत्तियां, समर्थनकारी दस्तावेजी प्रमाण के साध्य, अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवि हे भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार र वावा नहीं है. और यदि ऐसा कोई दावा मौजूद है. तो उसे छोड़ दिया गया है। इसके बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड उर वंपति पर प्रस्तावित वित्तपोषण और बंधक/प्रभार के निर्माण की कार्यवाही करेगा, और उसके बाद किसी भी आपत्ति या दा र विचार नहीं किया जाएगा।

अधिवक्ता का संपर्क विवरणः अधिवक्ता हिमांशु बंसल, प्रोग्नेसिव लॉ ग्रुप, १/14, तृतीय तल, ईस्ट पटेल नग देल्ली—110008, मोबाइल नं. 880025730 देनांकः 13.11.2025

अनुलम्नक ए : बिना बिकी इकाई का विवरण

काई संख्या	मंजिल	बिक्री योग्य क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फुट)
Anchor-001	भूतल	5179	2394
GF-002	भूतल	1224	549
GF-003	भूतल	1224	553
GF-005	भूतल	1224	553
GF-010	भूतल	1319	581
GF-011		1304	584
GF-014	भूतल	1312	595
GF-015	भूतल	1310	597
GF-017	भूतल	1402	639
Anchor-018	भूतल	15017	7121
GF-019	भूतल	558	243
GF-026	भूतल	1133	232
Anchor-101A	भूतल	2673	1210
Anchor-101B	प्रथम तल	3447	1602
FF-102	प्रथम तल	1468	657
FF-103	प्रथम तल	1459	662
FF-104	प्रथम तल	1459	662
FF-105	प्रथम तल	1439	652
FF-116	प्रथम तल	1138	513
FF-123	प्रथम तल	810	359
FF-124	प्रथम तल	810	359
FF-127	द्वितीय तल	3718	1796
Fine Dining - 1	द्वितीय तल द्वितीय तल	1020	2864
Fine Dining - 2	ाइताय तल	0041	3282
कुल		64588	29260

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार गोकुलामृत मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीण कुमार चतुर्वेदी, सर्तेंद्र नाथ चतुर्वेदी, प्रीति सिंह, हरीश कुमार, जय राम, रेशमा, विशाखा, रेशम राठौड और लोकेश कुमार राठौड को 20.08.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLAPBRL00392548 की राशि रू. 1,13,44,118.01 (रूपये एक करोड़ तेरह लाख चवालीस हजार एक सौ अठारह और एक पैसा मात्र)और 13.08.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के मीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 11.11.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 1,13,44,118.01 (रूपये एक करोड़ तेरह लाख चवालीस हजार एक सौ अठारह और एक पैसा मात्र) 13.08.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाताथा) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

भूमि/प्लॉट संपत्ति माप 2765 स्क्वेर मीटर्स के सभी भाग और खंड,, खेत नं./खसरा नं. 619/ 1039 में से, बांके गाँव चाँदपुर में स्थित, बिचपुरी, तहसील एवं जिला बरेली-243001, उत्तर प्रदेश और जिसकी सं निम्ननसार परिबध्द है:

पूर्व : सर्वोदय कॉलोनी उत्तर : खेत भीकम र्सिह

पश्चिम : एमटीआर रोड

दक्षिण : बी.डी.ए. कॉलोनी की सीमा दिवार

दिनांक : 11.11.2025 स्थान : बरेली

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबल्स हाउर्सिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि. सम्मान फिनसर्व लिमिटेड (CIN:U65923DL2006PLC150632) (पहले इंडियाबुल्स कर्माशयल क्रेडिट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सरोज कुमारी वर्मा (सह-उथारकर्ता, पली एवं स्वर्गीय मनीष कुमार वर्मा की कानूनी उत्तराधिकारी) C/o. जान्हवी आई.टी. सॉल्यूशंस, आकांक्षा वर्मा (सुपुत्री एवं स्वर्गीय मनीष कुमार वर्मा की कानूनी उत्तराधिकारी) और जान्हवी वर्मा (नाबालिग बेटी तथा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से स्वर्गीय मनीष कुमार वर्मा की कानूनी उत्तराधिकारी) को 17.09.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HLLAAGR00528263 का राशि रू. 22,99,028.58 (रूपये बाईस लाख निन्धानवे हजार अद्वाईस और अद्वावन पैसे मात्र) और

करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्ख्वरा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 11.11.2025 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

13.09.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 22,99,028.58 (रूपये बाईस लाख निन्यानवे हजार अदाईस और अदावन पैसे मात्र) 13.09.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान फिनसर्व लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स कर्माशयल क्रेडिट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान/प्लॉट नं. 70, क्षेत्र 132.29 स्ववे. यार्डस यानी 110.60 स्ववे. मीटर्स, कवर्ड क्षेत्र 96.12 स्ववे. मीटर्स, के.एच. नं. 1793 (केएचए), 1794, आरोग्य नगर, मौजा कुंडोल, आगरा-283111, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर : 48 फीट 6 इंच

पूर्व : 24 फीट 7 इंच पश्चिम : 24 फीट 7 इंच दक्षिण : 48 फीट 6 इंच

पूर्व : 15 फीट चौड़ी सड़क उत्तर : प्लॉट नं. 69

दिनांक : 11.11.2025

स्थान : आगरा

पश्चिम : 27 फीट चौडी सडक दक्षिणं : प्लॉट नं. 71

प्राधिकृत अधिकारी मान फिनसर्वं लिमिटेब (पहले इंडियाबुल्स कर्माशयल क्रेडिट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

🖣 शिवालिक स्मॉल फाइबैंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली — 110025, सीआईएन: यू65900डीएल2020पीएलसी366027

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन

अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के तहत मांग पूचना तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार∕सह—कर्जदारगण, जिनके द्वारा **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड मुख्यालय तृतीय तल एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर–125, नोएडा–201303** से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई थीं, अपनी क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस** नीचे दिया गया है। कर्जदारों द्वारा **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** को देय और बकाया राशियों का विस्तृत विवरा यहां नीचे दिया गया है।

र्क्नदार/कर्जदारो तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार **शिवालिक स्मॉ**र **फाइनैंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार/कर्जदारों के विरूद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण ए नर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तेन अधिनियम 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदा उनके नाम के सामने वर्णित बकाया राशि इस सूचना के 60 दिन के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट धारा 13 की उप–धारा 13(2) के तहत उसको प्रदर्ता किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनमें सम्पत्तियों का कब्जा लेना और उनके बेचना शामिल है। सर्वसाधारण को नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदार/गारंटर एवं बंधकदाता का नाम **श्री सगीर अहमद पुत्र श्री बसीर अहमद (कर्जवार/बंधकदाता) निवासी** मकान नंबर आवासीय भूखंड, क्षेत्रफल परिमाप 75.5 वर्ग गज यानी 63.12 वर्ग मीट 286, बेगमाबाद बुढाना, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201204, **2 श्रीमती बेगम** खसरा संख्या 77 एमआई, जो ग्राम पविम, बोझा परगना लोनी तहसील औ पत्नी श्री सगीर अहमद (सह-कर्जदार) निवासी मकान नंबर 266, बेगमाबाद बढाना, नोदी जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रिथत है। राजस्य अभिलेखों में बर्ह नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201204, **3. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह (गारंटर)** संख्या 1, जिल्द संख्या 2017 क्रमांक 8284 पृष्ठ संख्या 215-228 दिनांक निवासी मकान नंबर 999 नई बस्ती अहराम रोड नंदग्राम गाजियाबाद उत्तर 04-07-2003 को पंजीकृत। संपत्ति श्री संगीर अहमद पुत्र श्री बसीर अहम

नकान नंबर 15, केला देहात, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009

प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विस्तृत विवरण प्रदेश—201003, **४. श्री अरूग कुमार शर्मा पुत्र श्री राम नारायण शर्मा (गारंटर) निवासी** के नाम पर पंजीकृत है। सीमाः उत्तरः बशीर अहमद का भूखंड दक्षिणः फजुलरहमान का भूखंड, पश्चिमः अन्य भूखंड, पूर्वः गली संख्या 12 फी

एनपीए तिथि : 19-08-2025 ऋण खाता सं. मांग सूचना तिथि और राशि **ऋण खाता सं**. : 101541007924 और 101546510332, मांग **स्चना तिथि :** 11-11-200 **काया राशि :** रु. 10,10,000/— (रूपये दस लाख दस हजार मात्र) 10—11—2025 तक

प्राधिकत अधिकारी. शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेर दिनांक : 11-11-2025 स्थान : नोएडा

using पंजी, कार्यालय : श्रवां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, प्रेन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com देहरादून शाखा:-जोडियाक सेंट्रल, तीसरी मंजिल, नगर निगम नंबर 4, नरदेव शास्त्री मार्ग, गांधी रोड, देहरादून-248001, उत्तराखंड (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभृति दित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

पुनरीनेमीण एवं प्रतिनृति हित प्रवर्तन कोशिनस्म, 2002 के अध्याय 111 की घारा 13(2) के अधीन सूचना "
एनरीनेमीण एवं प्रतिनृति हित प्रवर्तन अशिनस्म, 2002 के अध्याय 111 की घारा 13(2) के अधीन सूचना जारी का प्रतिनृति हित प्रवर्तन अशिनसम्म एवं एवं प्रतिनृति हित प्रवर्तन अशिनसम्म एवं एवं प्रतिनृति हित प्रवर्तन अशिनसम्म अग अशिनसम्म के एवं प्रतिनृति हित प्रवर्तन अशिनसम्म स्थान का प्रतिनृति हित प्रवर्तन अशिनसम्म स्थान स्था

ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रंटर का नाम और पता		मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
बी.ओ. देहरादून	स्वर्गीय बिन्नी खोसला, के सभी कानूनी उत्तराधिकारी, मधु खोसला और लक्ष्य खोसला 5/23, राजा रोड देहरादून उत्तराखंड–248001	NA	खसरा नंबर 1200, प्लॉट नंबर 227, चरण 1 मौजा कंवाली इंजीनियर्स एक्लेव जीएमएस रोड, परगना सेंट्रल दून वेहरादून, उत्तराखंड —248001		• 38,79,540.41 / — (रुपये अड़तीस लाख उन्यासी हजार पाँच सौ चालोस और इकतालीस पैसे मात्र)
HOU/DEH/0821/904646, बी.ओ. देहरादून	स्वर्गीय श्री बघेल सिंह के सभी कानुती ज़्तराधिकारी और श्रीमती विमला देवी दीप कोलोनी, बडोवाला, देहरादून, उत्तराखंड—248007, भारत और कुकावाला, मार्खेम ग्रांट, देहरादून, उत्तराखंड—248140, भारत	"-	खसरा नंबर 1026 मिन, मौजा अर्कांडिया ग्रांट, परगना पछवादून, देहरादून, उत्तराखंड, भारत—248001	10.10.2025	रु. 2.26,958/- (रुपये दो लाख छब्बीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र)
HOU/DEH/0923/1158031, बी.ओ. देहरादून	स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र कुमार के सभी कृगनुनी उत्तरायिकारी, और शोमा देवी भारतीय रेलवे डीजल लोको आधुनिकोकरण वर्जस पटियाना पंजाब –147003 और सी/ओ गिरधारी जाल, 1170 टाइम 2 डीएमंडब्ल्यू कॉलोनी झील पटियाला के पास. डीसींडब्ल्यू पंजाब, पटियाला, पंजाब–147003	NA	क्लॉक की प्लॉट नंबर 4, रिविह विनायक कॉलोनी, फेज 2 खसरा नंबर, 1820 गांव सलेमपुर महदूद 2 परगना रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखड़-84158 सीमा पूर्व-20 फीट गोड़ परिचन-मुनीता की संपत्ति, उत्तर-पुनील कुमार सेनी की संपत्ति, उत्तर-पुनील कुमार सेनी की संपत्ति, दक्षिण-प्लॉट नंबर 5		09.10.2025 तक रु.18,12,334.40 /— (७२४ अद्वारह लाख बारह हजार तीन सौ चौतीस और चालीस पैसे मात्र)
स्थान : देहरादून, दिनांकित	r : 13-11-2025		प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते	पीएनबी हार	सिंग फाइनैंस लिमिटेड



शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

सीआईएनः L34300HR2005PLC081531 पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, टॉवर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा — 122102 टेलीफोन: 0124-4698700; फैक्स: 0124-4698798 ई-मेलः info@shivamautotech.com; वेबसाइटः www.shivamautotech.com

30 सितम्बर 2025 को समाप्त तिमाही हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

0.2025 केक्षित) 296.60	9,073.15 (1,635.26)	31.03.2025 (अंकेक्षित) 12,043.36 (1,049.32)
के क्षित) 296.60 111.96)	(अनअंकेक्षित) 9,073.15 (1,635.26)	(अंकेक्षित) 12,043.36
296.60 111.96)	9,073.15 (1,635.26)	12,043.36
111.96)	(1,635.26)	
		(1,049.32)
40 00)	,	
42.32)	(1,765.61)	(1,109.02)
24.53)	(1,747.51)	(1,121.61)
29.90	2,629.90	2,444.44
0.04	(1.34)	(0.91)
0.94)		(0.91)
	0.94)	D.94) (1.34) D.94) (1.34)

- उपरोक्त विवरण सेबी (सचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों का उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट <u>www.shivamautotech.com</u> पर उपलब्ध है।
- पूर्व अविध के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।



कृते एवं शिवम ऑटोटेक लिमिटेड के लिए

हस्ता /-नीरज मुंजाल प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद

दिनांकः 12.11.2025

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 12 नवम्बर, 2025

एसपीएल इंडस्ट्रीज लि.

पंजीकृत कार्यालयः 202, दसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ईमेलः cs@spllimited.com I CIN: L74899DL1991PLC062744

प्रबंधक सूचीयन विभाग, एनएसई/बीएसई 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाडी और छमाडी के लिए

અલહા	पशाक्षत ।	वत्ताय पा	रणाम			
						(र लाखों में)
विवरण	30.09.2025 को समाप्त तिमाही	30.08.2025 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2025 को समाप्त छमाही	30.09.2024 को समाप्त छमाही	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	1,810.02	2,035.56	4,298.33	3,845.58	8,857.89	15,319.61
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाम / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	(7.38)	123.95	401.52	116.56	777.74	1,295.24
कर पूर्व साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(7.38)	123.95	401.52	116.56	777.74	1,295.24
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(19.83)	91.30	396.75	71.46	655.12	979.15
कुल समग्र आय (कर पश्चात लाभ / (हानि) और कर के बाद अन्य समग्र आय शमिल)	(19.83)	91.30	396.75	71.46	655.12	977.41
इक्विटी शेयर पूंजी	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के तुलनपन्न में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर से पूर्व) (रु. 10 / – प्रत्येक के)						
मूलः तरलः	(0.03) (0.03)	0.43 0.43	1.38 1.38	0.40 0.40	2.68 2.68	4.47 4.47
प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों और कर के बाद)						
(रु. 10 /— प्रत्येक के) मूलः	(0.07) (0.07)	0.31 0.31	1.37 1.37	0.25 0.25	2.26 2.26	3.37 3.37
तरतः	(0.07)	0.31	1.37	0.20	2.20	3.31

- उपर्यक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षिण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 12 नवंबर 2025 को आयोजित उनकी बैठक अनुमोदित किए गए हैं। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए परिणामों का सांविधिक लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षण किया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत यथानिर्धारित, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) और लागू सीमा त मान्य लेखाकरण कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के अनुपालन में विवरण तैयार किए गए हैं। कंपनी ने इंड-एएस 01 अप्रैल, 2017 से अपनाया।
- निवेशक मंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर, 2025 को आयोजित हुई और उपर्यक्त परिणाम अनुमोदित किए गए। इंड एएस 108 "परिचालन खंड" के अनुसार कंपनी ने एकल वित्तीय परिणामों के भाग के रूप में केवल खंड सुचना प्रकट की है। . । अप्रैल, 2018 से प्रभावी कंपनी ने इंड–एएस 115– ग्राहकों से अनुबंधों से राजस्व को अपनाया। इंड–एएस 115 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणाग
- पर नगण्य है। 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कंपनी ने इंड-एएस 116- लीज अपनाया। इंड-एएस 116 अपनाने का प्रभाव वित्तीय परिणामों पर नगण्य है। 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही / छमाही के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- पूर्व वर्ष/अविधयों के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

मुकेश कुमार अग्रवाट (प्रबंध निदेशक)

💶 एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN : L65910HR1982PLC034071 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोन: +91-124-4675500, फैक्स: +91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

30/09/2025 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध-वर्ष हेतु अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रू. लाख में अर्द्ध वर्ष विवरण संगत तिमाही समाप्त समाप्त 30/09/2025 30/09/2024 30/09/2025 अनंकेक्षित अनंकेक्षित अनंकेक्षित परिचालन से कुल आय (शुद्ध) 8.47 4.26 अवधि हेतु शुद्धं लाभ्/(हानि) (10.10)(10.27) (18.22)(कर, अपवाद मदो से पूर्व) अविध हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पूर्व (अपवाद मदों के बाद) (10.27)(10.10)(18.22)अविध हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद) (10.27)(10.10)(18.35)अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (18.35)(10.27)(10.10)(कर पश्चात) सम्मिलित हैं] इक्विटी शेयर पूंजी 1286.27 1286.27 1106.27 संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है) NA NA N/ प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) (0.08)(0.09)मूल : (0.14)(0.14) तनुकृत : (0.08)(0.09)नोट्स :

(1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर उपलब्ध है। उसको नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 12 नवम्बर, 2025 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।



कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड हस्ता./-अनिल गोयल स्थान : गुरूग्राम तिथि : 12/11/2025 (प्रबंध निहेशक DIN- 00001938

C 🗆 🗎 🏶 सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड cin: 187100GJ2015PTC0

पहली मंजिल, चेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752 कड़ो की सूचना

"फिनोवा कैंपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता 🗸 सह-उधारकर्ताओं, बंघककर्ताओं / गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त व्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राष्टि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणा/सह-ऋणा एवं गारण्टर का नाम एवं पता	माग नाटिस की तिथि और राशि	कब्ज की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 5023550, सोमप्रकाश (ऋणी), दिनेश कुमार (सहऋणी), राज बाला (सहऋणी), कृष्ण लाल (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 6,43,215/ छःलाख तेतालीस हजार दो सौ पन्द्रह रूपथे मात्र 31.03.2025 तक	06- नवम्ब र- 25	रिहायशो/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 04 हाबरी रोड, गामरी पुंडरी, तहसील पुंडरी, जिला कैथल, हरियाणा 136026, क्षेत्रफल 1565 वर्गफीट, पूर्वः हाबरी रोड, पश्चिमः हाबरी रोड, उत्तरः बीरकल की दुकान, दक्षिणः गली
(ऋण खाता संया) 5026399, दिनेश (ऋणी/बंधककर्ता), सतपाल सिंह (सहऋणी), किशना देवी (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 4,65,037/- चार लाख पैंसठ हजार सैतीस रूपये मात्र 31.03.2025 तक	06- नवम्ब र- 25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 01 शिमल पट्टी, आंगनबाडी के पास, ग्राम मतोर, तहसील कालायत, जिला कैथल, हरियाणा 136117, क्षेत्रफल 1036 वर्गफीट, पूर्व: पीरथी पुत्र काशीराम का मकान, पश्चिमः पीरथी पुत्र काशी का मकान, उत्तर: सरकारी संपत्ति, दक्षिण: 30 फीट चौडी गली
(ऋण खाता संख्या) 5032880, महीनदेरी देवी (ऋणी), रविकान्त (सहऋणी ⁄बंधककर्ता),	27.05.2025 Rs. 3,71,228/- तीन लाख इकहत्तर हजार दो सौ अद्ठाईस रूपये मात्र 31.03.2025 तक		रिह्मयशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित हनुमान मंदिर के पास, ग्राम सिरसल, तहसील पुण्डरी एवं जिला कैथल, हरियाणा, 136026, क्षेत्रफल 963 वर्गफीट, पूर्वः रामस्वरूप पुत्र जाज् राम का मकान एवं कश्मीर पुत्र मानसा राम का मकान, पश्चिमः रामस्वरूप पुत्र चाजू राम का मकान, उत्तरः 6 फीट 3 इंच गली, दक्षिणः 12 फीट चौडी गली
(ऋण खाता संख्या) 5045737, संदीप कुमार (ऋणी), रामेश्वर (सहऋणी ⁄ बंधककर्ता), गुरदीप (सहऋणी), रीना (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 2,86,752/- दो लाख छियासी हजार सात सौ बावन रूपये मात्र 31.03.2025 तक	06- नवम्ब र- 25	रिह्मयशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित धाना की बैठक के पास, गुरूद्वारा के पास, ग्राम नागल, उप तहसील सिवान, जिला कैथल हरियाणा, 136033, क्षेत्रफल 436 वर्गफीट, पूर्वः रामचन्दर पुत्र मोना का मकान, पश्चिम: रामचन्दर पुत्र मोना का मकान, उत्तर: 8.6 फीट चौडी गली, दक्षिण: पम्मास पुत्र जागीरा का मकान
			प्राधिकत अधिकारी

सीएफएम एसेट रिकस्ट्रवंशन प्राइवेट लिमिटेह दिनांकः 12.11.2025 [सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – 159 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत] स्यानः हरयाणा

्सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड cin: u67100GJ2015PTC083994 पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -40038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752 कर्जी की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेंड ने 31 दिसंबर 2024 के असाइनमेंट डींड के जिएए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेंड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ धककर्ताओं /गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है । उधारकर्ता और आम जनता को यह सचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोर्ड भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान प्रधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है । LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण ।

तिथि

25

बंधक सम्पत्ति का विवरण

रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्टुक्चर एवं

फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खेवट नं. 254, खतोनीनं.

289, 299, ग्राम आशाखेडा, तहसील डाबवाली, जिला सिरसा,

पांग नोटिस की

तिथि और राशि

18-फरवरी-25 Rs.

5.17.053/- <mark>पांच लाख सन्नह</mark>

हजार तिरेपन रूपये मात्र

का नाम एवं पता

बिमला देवी (ऋणी), तारसेम

(सहऋणी)

(Novem)	31-12-2024 तक		हरियाणा, 125101, क्षेत्रफल 850 वर्गफीट, पूर्व रोड, पश्चिम: राजेश का मकान, उत्तर: महेन्द्र का मकान, दक्षिण: रोड
(ऋण खाता संख्या) 6008379, प्रीत कौर (ऋणी), अंगरेज सिंह (सहऋणी), करम रेखा (सहऋणी), सुखदेव सिंह (सहऋणी)		07-नवम्बर- 25	रिह्मयशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित हृदबस्त नं. 0096, खेवट नं. 225, खतोनी नं. 330, सुराबा नं. 102, किला नं. 7/2/3/2 जमाबन्दी वर्ष 2017-18, वाका ग्राम मालेकान, तहसील एवं जिला सिरसा, हरियाणा 125055, क्षेत्रफल 1315 वर्गफीट, पूर्वः मुंशीराम की कृषि, पश्चिमः 22 फीट चौडी गली, उत्तरः राणा का खाली प्लॉट, दक्षिणः कुलदीप सिंह एवं गुरमुख सिंह का मकान
(ऋण खाता संख्या) 5022290, संदीप कुमार (ऋणी), मीरा देवी (सहऋणी)	17-मार्च-25 Rs. 7,86,922/- सता लाख छियासी हजार नौ सौ बाईस रूपये मात्र 31-12-2024 तक	08-नवम्बर- 25	रिहायशी/व्यावसाथिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खेवट नं. 414 खतोनी नं. 461, मुरब्बा नं. 66 किला नं. 7/2 ग्राम मोरी तहसील दाबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा 125103 क्षेत्रफल 98 फीट कृष्णा देवी, पश्चिम: 98 फीट लिलत कुमार, उत्तर: 27 फीट रोड, दक्षिणड 27 फीट भारद्वाज
(ऋण खाता संख्या) 5023216, मनोज (ऋणी), संतोष (सहऋणी)	17-मार्च-25 Rs. 6,83,856/- छः लाख तिरासी हजार आठ सौ छप्पन रूपये मात्र 31-12-2024 तक	06-नवम्बर- 25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम तारागढ, तहसील एवं जिला कैथल, क्षेत्रफल 768 वर्गफीट, पूर्व: सत्ता, पश्चिम: जियालाल, उत्तर: जोगी, दक्षिण: गली
(ऋण खाता संख्या) 5029867, सुरजीत राम (ऋणी), करमजीत (सहऋणी)		07-नवम्बर- 25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्डनं. 15 नाटो वाली गली ग्राम रनिया, तहसील रनिया एवं जिला सिरसा ग्राम रनिया, तहसील रनिया एवं जिला सिरसा, हरियाणा, क्षेत्रफल 1348 कर्गफीट, पूर्वः तेहला सिंहकी कृषि भूमि, पश्चिम: 5 फीट चौडी गली, उत्तरः रामसिंह का प्लॉट, दक्षिण: अमरजीत सिंह का प्लॉट
(ऋण खाता संख्या) ६०14898, सुनील कुमार (ऋणी), रीना देवी (सहऋणी)	17-मार्च-25 Rs. 4,55,527/- चार लाख पंचपन हजार पांच सौ सत्ताईस रूपये मात्र 31-12-2024 तक	06-नवम्बर- 25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्बर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित क्षेत्रफल 110.414 वर्गगज या 993.726 वर्गफीट या 92.32 वर्गमीटर जोकि प्लॉट/ मकान यूआईडी नं. लेजर नं. ग्राम भाना का लाल डोरा, तहसील पुण्डरी, जिला कैथल 136043, क्षेत्रफल 688 वर्गफीट, पूर्वः 5 फीट चौडी गली एवं राजेश पुत्र भरशु राम कान, पश्चिमः करमबीर सिंह पुत्र पूरण सिंह का मकान, उत्तरः करबीर सिंह पुत्र पूरण सिंह का मकान, दक्षिणः ईश्वर सिंह पुत्र तेलू राम का मकान

प्राधिकृत अधिकारी सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड दिनांकः 12.11.2025 [सीएफएमएआरसी ट्रस्ट – १५१ के ट्रस्टी के रूप में कार्यस्त] स्यानः हरवाणा